



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 9—अप्रैल 15, 2005 (चैत्र 19, 1927)

No. 15] NEW DELHI SATURDAY, APRIL 9—APRIL 15, 2005 (CHAITRA 19, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 5 मार्च 2005

के ग्रेड में तदर्थ आधार पर 4 मार्च, 2005 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

सं० पीएफ 2869(3)/जीएन-5397/2005/एन-I--
अध्यक्ष महोदय, 12750-16500 रु० के वेतनमान में कार्यरत मुद्रण और प्रकाशन नियंत्रक, श्री राधे श्याम को 15100-400-18300 रु० के वेतनमान में मुख्य नियंत्रक मुद्रण और प्रकाशन के ग्रेड में 4 मार्च, 2005 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

सं० पीएफ 2127(3)/जी एन-5404/2005/एन-I--
अध्यक्ष महोदय 7450-11500 रु० के वेतनमान में अनुवादक के पद पर कार्यरत श्रीमती कोमल यादव को 8000-275-13500 रु० के वेतनमान में सहायक सम्पादक

1-12 GI/05

(349)

सं० पीएफ 2641(3)/जी एन-5403/2005/एन-I--
अध्यक्ष महोदय, 7450-11500 रु० के वेतनमान में कार्यरत निर्मालिखित अनुवादकों को 8000-275-13500 रु० के वेतनमान में सहायक संपादक के ग्रेड में, नाबंद बर्खास्त किए गए क्रम में, 4 मार्च, 2005 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

1. श्री श्रीविलास पाण्डेय
2. श्रीमती इन्दु बक्शी
3. श्री सुरेश कुमार मुनेजा

2. वे सहायक संपादक के ग्रेड में 4 मार्च, 2005 से 3 मार्च, 2007 तक दो वर्षों के अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

3. उनकी सहायक संपादक के ग्रेड में परस्पर दरिष्ठता 20 दिसम्बर, 2003 के आर एण्ड सीएस आदेश सं० पीडीए-1076/2003 के निबंधनों के अनुसार नियमित की जाएगी।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

सं० पीएफ 2264(3)/जीएन-5402/2005/एएन-I—
अध्यक्ष महोदय, 8000-13500 रुपए के वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित सहायक संपादकों को 10000-325-15200 रुपए के वेतनमान में संपादक के ग्रेड में, सीधे दर्शाए गए क्रम में, 4 मार्च, 2005 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

1. श्री जे० बी० एस० रावत

2. कुमारी सुमन रतन

2. उनकी संपादक के ग्रेड में परस्पर दरिष्ठता 20 दिसम्बर 2003 के आर एण्ड सीएस आदेश संख्या पीडीए-1076/2003 के निबंधनों के अनुसार नियमित की जाएगी।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

सं० पीएफ 1882(3)/जीएन-5401/2005/एएन-I—
अध्यक्ष महोदय, 10000-15200 रुपए के वेतनमान में संपादक के पद पर कार्यरत, श्री एन० सी० खुन्ने को 12000-375-16500 रुपए के वेतनमान में दरिष्ठ संपादक के ग्रेड में 4 मार्च, 2005 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

सं० पीएफ 1328(3)/जीएन-5400/2005/एएन-I—
अध्यक्ष महोदय, 8000-13500 रुपए के वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित मुद्रण प्रबंधकों को 10000-325-15200 रुपए के वेतनमान में सहायक निदेशक (मुद्रण और प्रकाशन) के ग्रेड में सीधे दर्शाए गए क्रम में 5 मार्च, 2005 से, अगले आदेश तक, सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

1. श्रीमती सुमन तलवार

2. श्री रवी कुमार गुप्ता

2. उनकी सहायक निदेशक (मुद्रण और प्रकाशन) के ग्रेड में परस्पर दरिष्ठता 20 दिसम्बर 2003 के आर एण्ड सीएस आदेश सं० पीडीए-1076/2003 के निबंधनों के अनुसार नियमित की जाएगी।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

सं० पीएफ 1130(3)/जीएन-5399/2005/एएन-I—
अध्यक्ष महोदय, 10000-15200 रुपए के वेतनमान में कार्यरत सहायक निदेशक (पी पी), श्री एस० के० खन्ना को 12000-375-16500 रुपए के वेतनमान में सहायक नियंत्रक, मुद्रण और प्रकाशन के ग्रेड में 4 मार्च, 2005 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

सं० पीएफ 962(3)/जीएन-5398/2005/एएन-I—
अध्यक्ष महोदय, 12000-16500 रुपए के वेतनमान में कार्यरत सहायक नियंत्रक, मुद्रण और प्रकाशन श्री एस० के० वर्मा को 12750-16500 रुपए के वेतनमान में नियंत्रक, मुद्रण और प्रकाशन के ग्रेड में 4 मार्च, 2005 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 मार्च 2005

सं० ए-12011/01/2003/एस० एस०—मंत्रिमंडल सचिवालय की दिनांक 27 दिसम्बर, 2004 को अधिसूचना सं० ए-12011/01/2003-एस० एस० के अन्तर्गत में, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप को स्वाक्षर स्टाफ आता को और आगे सीनियर को गई। निम्नलिखित दिनांक में 159 अधिकारी तबों के सृजन के लिए एडमिशन राष्ट्रीय को स्वाक्षर हो जाती है। पाठ्यपत्रों में एस० एस० में सार्ह 'क' 'ख' 'ग' और 'घ' में वेतनमानों सहित, संगोष्ठी स्टाफ अन्तर्गत एडमिशन संलग्न अनुबंध के अनुसार तत्काल प्रभाव से अधिसूचित की जाती है।

डी०सी०एस० राव, अवसर सचिव

अनुबंध

स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में पदों तथा उनके वेतनमानों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	पद का नाम	वर्तमान पद	स्वीकृत अतिरिक्त पद	कुल	वेतनमान
1	2	3	4	5	6
					रुपए/-
01.	निदेशक	01	---	01	22400-525-24500/- 18400-500-22400/-
02.	सहानिरीक्षक	02	---	02	18400-500-22400/-

1	2	3	4	5	6
03.	उप महानिरीक्षक	10	—	10	16400-450-20000/-
04.	सहायक महानिरीक्षक	44	04	48	14300-400-18300/- 12000-375-16500/- 10000-325-15200/-
05.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	01	—	01	14300-400-18300/- 12000-375-16500/-
06.	चिकित्सा अधिकारी	05	—	05	12000-375-16500/- 10000-325-15200/- 8000-275-13500/-
07.	मनोचिकित्सक	01	—	01	14300-400-18300/- 12000-375-16500/- 10000-325-15200/-
08.	वैट सर्जन	01	—	01	10000-325-15200/-
09.	वरि० सुरक्षा अधिकारी	74	10	84	10000-325-15200/- 8000-275-13500/- 6500-200-10500/-
10.	वरि० सुरक्षा अधिकारी (तकनीकी)	12	—	12	10000-325-15200/- 8000-275-13500/- 6500-200-10500/-
11.	वरि० सुरक्षा अधिकारी (मंत्रालयीय)	12	—	12	10000-325-15200/- 8000-275-13500/- 6500-200-10500/-
12.	अनुभाग अधिकारी	02	—	02	6500-200-10500/-
13.	निजी सचिव	02	—	02	6500-200-10500/-
14.	सुरक्षा अधिकारी-I	356	78	434	6500-200-10500/-
15.	सुरक्षा अधिकारी-II	535	11	546	5500-175-9000/-
16.	कनि० सुरक्षा अधिकारी	04	—	04	4000-100-6000/-
17.	सुरक्षा अधिकारी-I (टी)	48	—	48	6500-200-10500/-
18.	सुरक्षा अधिकारी-II (टी)	45	—	45	5500-175-9000/-
19.	वरि० सुरक्षा सहायक (टी)	35	—	35	3200-85-4900/-
20.	सुरक्षा सहायक (टी)	16	—	16	3050-75-3950-80-4590/-
21.	सुरक्षा अधिकारी-I (डब्ल्यूटी)	10	—	10	6500-200-10500/-
22.	सुरक्षा अधिकारी-II (डब्ल्यूटी)	39	—	39	5500-175-9000/-
23.	कनि० सुरक्षा अधिकारी (डब्ल्यूटी)	29	—	29	4000-100-6000/-
24.	वरि० सुरक्षा सहायक (डब्ल्यूटी)	24	—	24	3200-85-4590/-
25.	सुरक्षा अधिकारी-I (एम)	46	—	46	6500-200-10500/- 5500-175-9000/-

1	2	3	4	5	6
26.	सहायक	04	—	04	5500-175-9000/- 5000-150-8000/-
27.	आशुलिपिक ग्रेड-II	04	—	04	5500-175-9000/- 5000-150-8000/-
28.	सुरक्षा अधिकारी-II (एम)	36	—	36	5500-175-9000/- 4000-100-6000/-
29.	उ० श्रे० लि०	10	—	10	4000-100-6000/-
30.	आशुलिपिक ग्रेड-III	03	—	03	4000-100-6000/-
31.	वरि० सुरक्षा सहायक (एम)	05	—	05	3200-85-4900/-
32.	अ० श्रे० लि०	02	—	02	3050-75-3950-80-4590/-
33.	वरि० सुरक्षा सहायक	257	21	278	3200-85-4900/-
34.	सुरक्षा सहायक	340	—	340	3050-75-3950-80-4590/-
35.	वरि० सुरक्षा सहायक (एमटी)	241	27	268	3200-85-4900/-
36.	सुरक्षा सहायक (एमटी)	192	08	200	3050-75-3950-80-4590/-
37.	सुरक्षा अधिकारी-II (एमटी)	04	—	04	5500-175-9000/-
38.	कनि० सुरक्षा अधिकारी (एमटी)	21	—	21	4000-100-6000/-
39.	वाटर कैरियर	02	—	02	2550-55-2660-60-3200/-
40.	लेखाकार	01	—	01	5500-175-9000/-
41.	कनि० लेखाकार	02	—	02	4500-125-7000/-
42.	प्रयोगशाला सहायक	01	—	01	3200-85-4900/-
43.	प्रयोगशाला तकनीकीशियन	01	—	01	3200-85-4900/-
44.	स्टाफ नर्स	01	—	01	5000-150-8000/-
45.	फार्मासिस्ट	02	—	02	4500-125-7000/-
46.	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	01	—	01	5000-150-8000/-
47.	अति०	01	—	01	3200-85-4900/-
	उपचारिका-सह-प्रसाविका				
48.	उपचर्या सहायक	01	—	01	2550-55-2660-60-3200/-
49.	फराश	02	—	02	2550-55-2660-60-3200/-
50.	दफ्तरी	02	—	02	2610-60-3150-65-3540/-
51.	भौतिक चिकित्सक	01	—	01	4500-125-7000/-
	कुल	2491	159	2650	

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 मार्च 2005

सं० 32013/2/2005-प्रशा० IV (वि०का०)—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23-2-2005 के कार्यालय ज्ञापन सं० 21/13/2004-सो०एस० I (ख) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, भूतल परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, जहाजगती विभाग के ग्रेड-I (आर संचा) श्री दावाकर को दिनांक 1-3-2005 के पूर्वाह्न से विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग में, उप सचिव (केन्द्रीय सचिवालय सेवा का चयन ग्रेड) के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

3. इस तदर्थ प्रीनति से उन्हें इस ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में सम्मिलित किए जाने अथवा चयन ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

3. यह तदर्थ नियुक्ति बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

यशवन्त सिंह, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 2005

सं० 17012/9/99-आई एस डी-VI— अपना कार्यकाल पूरा होने पर न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्ति) जय सिंह सेवों ने दिनांक 28-2-2005 के आराह्न से मुख्य आयुक्त, गुरद्वारा चुनाव, चंडीगढ़ का पद छोड़ दिया है।

वी० के० गुप्ता, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 23 मार्च 2005

सं० आई-14011/18/2004-आई० पी० एम०-I— भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में नोति उल्लंघनों का प्रयोग हुए सघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 18-3-2005 को चयन समिति को दिनांक 1-12-2004 का बैठक में इसके द्वारा बनाई गई वर्ष 2004 को उस चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के पश्चिम बंगाल संवर्ग में वर्ष 2004 में चौदह मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु पश्चिम बंगाल राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है :—

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1	2	3
1.*	शेरिंग फिनेहूक शेरपा (अ०ज०जा०)	20-9-1954
2.	स्वपन कुमार मैटी	19-3-1954

1	2	3
3.	देवाशीष घोष	28-3-1954
4.	शुभाशीष चेटर्जी	17-9-1958
5.	दिलीप बंधोपाध्याय	12-12-1955
6.	तपस रंजन घोष	29-6-1953
7.	शंकर चक्रवर्ती	17-1-1954
8.	महबूब रहमान	14-1-1958
9.	बिस्वरूप घोष	21-5-1953
10.†	सुनील कुमार हल्दर	2-9-1958
11.	श्यामल कुमार भट्टाचार्य	7-7-1953
12.	काली शंकर मन्ना	25-10-1950
13.	नरेन्द्र नाथ हल्दर	14-3-1951
14.	शकील अहमद	4-2-1957

*क्रम संख्या 1 पर दिए गये नाम को उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के निपटान किए जाने एवं उन्हें राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठ प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के अधीन सूची में अंतर्निहित रूप से शामिल किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा उनके दिनांक 10.02.2005 एवं 21.02.2005 के पत्र सं० 302-3 पो-2/2004 द्वारा बाद में सूचित किए जाने के फलस्वरूप, क्रम संख्या 10 पर दिए गए नाम को उनके विरुद्ध आपराधिक मामलों के निपटान किए जाने के अधीन सूची में अंतर्निहित रूप से शामिल किया गया है।

ओ० एस० अशोक, अवर सचिव

सं० आई-14011/18/2004-आई० पी० एस०-1— राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पश्चिम बंगाल राज्य पुलिस के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में पारवोक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल संवर्ग प्रदान करते हैं। यह नियुक्तियां अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावशाली होंगी :—

चयन सूची-2004

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1	2	3
1.	स्वपन कुमार मैटी	19-03-1954
2.	देवाशीष घोष	28-03-1954

1	2	3
3.	शुभाशीष चेटर्जी	17-09-1958
4.	दिलीप बंधोपाध्याय	12-12-1955
5.	तपस रंजन घोष	29-06-1953
6.	शंकर चक्रवर्ती	17-01-1954
7.	महबूब रहमान	14-01-1958
8.	विश्वरूप घोष	21-05-1953
9.	श्यामल कुमार भट्टाचार्य	07-07-1953
10.	काली शंकर मन्ना	25-10-1950
11.	नरेन्द्र नाथ हल्दर	14-03-1951
12.	शकील अहमद	04-02-1957

ओ० एस० अर्शोक, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

दिनांक 28 मार्च 2005

सं० I-18012/2/2005-आई० पी० एम०-1--भारतीय पुलिस सेवा (परिक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, महाराष्ट्र संदर्भ के भारतीय पुलिस सेवा के सदस्य श्री बी० एस० शिन्दे को दिनांक 1-12-01 में भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं।

ओ० एस० अर्शोक, अवर सचिव

कामिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कामिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 मार्च 2005

सं० ए-32014/1/2005-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित स्थायी सहयोगी को कामिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17-02-2005 के कार्यालय ज्ञापन सं० 21/9/2004 के सं० (खंड) में दी गई शर्तों के अधीन, प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाई गई तारीखों से अगले आदेश होने तक, कामिक और प्रशिक्षण विभाग में तदर्थ आधार पर 6500-200-10500/- हुए के वेतनमान में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं :-

क्र० सं०	नाम	नियुक्ति की तारीख
1	2	3
1.	श्री करतार सिंह	24-02-2005(पूर्वाह्न)
2.	श्री राजन काबुई	-वही-
3.	श्री राजेश नागपाल	25-02-2005(अराह्न)
4.	श्री राम अवतार गोयल	-वही-
5.	श्रीमती अंजली आनंद	-वही-

1	2	3
6.	श्री शमशाद अहमद अंसारी	25-2-2005(आराह्न)
7.	श्री मनीष रंजम	-वही-
8.	श्री मोहन लाल मीणा	-वही-

एन० के० पुष्पाकरन, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 23 मार्च 2005

सं० 14013/04/2001-अ०भा०से० (III)--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के मध्य प्रदेश संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को प्रत्येक के सामने उल्लिखित तारीख से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं :-

क्र० सं०	नाम	वैच	स्थायीकरण की तिथि
1.	श्री डी० पी० तिलाल	1935	18-3-1992
2.	श्री डी० एस० राय	1987	17-6-1994

जी० सी० पाण्डेय, अवर सचिव

दिनांक 24 मार्च 2005

सं० 14015/12/2004-अ०भा०से०-(I)-क--भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के विनियम 7 के उप विनियम (1) में विहित उपायों के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के केरल संवर्ग में वर्ष 2004 के संबंध में विद्यमान एक (01) रिक्ति भरने हेतु, चयन समिति द्वारा दिनांक 30 दिसम्बर, 2004 को आयोजित आनी बैठक में तैयार की गई केरल राज्य सिविल सेवा से हार गंग के सदस्य श्री बी० एन० विजयराघव मेनन (जन्म तिथि-03-08-1950) के नाम वाली वर्ष 2004 को प्रवर्त-रूबो अनुमोदित कर दी है।

के० के० शर्मा, डैस्क अधिकारी

सं० 14015/12/2004-अ०भा०से०-(i)-क--भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 7 के उप विनियम (3) में विहित उपायों के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के केरल संवर्ग में वर्ष 2003 और 2004 के दौरान हुई 01(एक) रिक्ति को भरने के लिए 30 दिसम्बर, 2004 को आयोजित अपनी बैठक में चयन समिति और 01(एक) द्वारा तैयार की गई केरल राज्य के राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों के नामों वाली भारतीय प्रशासनिक

सेवा के केल संवर्ग की वर्ष 2003 और 2004 का चयन सूचियां अनुमोदित कर दी हैं :—

चयन सूची : 2003

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
(सर्वश्री)		
*@0.	के० आर० राजन (अनुसूचित जनजाति)	02-12-1956
*1.	जी० मोहनन (अनुसूचित जाति)	10-04-1955

@ क्रम संख्या 0 पर उल्लिखित अधिकारी का नाम जोन के अतिरिक्त और चयन सूची के आकार के अलावा शामिल किया गया है।

*क्रम संख्या 0 और 1 पर उल्लिखित अधिकारियों के नाम चयन सूची में अंतिम रूप से शामिल किए गए हैं जो कि उनके विरुद्ध लंबित अनुशासनिक कार्यवाही में उनके दोषमुक्त हो जाने तथा राज्य सरकार द्वारा उन्हें सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र दिए जाने की शर्त के अधीन हैं।

चयन सूची : 2004

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
(सर्वश्री)		
*@0क.	के० आर० राजन (अनुसूचित जनजाति)	02-12-1956
*0ख.	बी० मोहनन (अनुसूचित जाति)	10-04-1955
1.	ए० शाहजहां	12-07-1961

@क्र० सं० 0क पर उल्लिखित अधिकारी का नाम जोन के अतिरिक्त और चयन सूची के आकार के अलावा शामिल किया गया है।

*क्र० सं० 0क और 0ख पर उल्लिखित अधिकारियों के नाम चयन सूची में अंतिम रूप से शामिल किए गए हैं जो कि उनके विरुद्ध लंबित अनुशासनिक कार्यवाही में उनके दोषमुक्त हो जाने तथा राज्य सरकार द्वारा उन्हें सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र दिए जाने की शर्त के अधीन हैं।

के० के० शर्मा, डेस्क अधिकारी

सं० 14015/12/2004-अ०भा०से०-(I)-ब-भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप विनियम (1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली 1954 के नियम 3 के साथ पठित, भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, केरल राज्य सिविल सेवा के अधिकारी श्री ए० शाहजहां को वर्ष 2004 की रिक्ति पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिवीक्षा पर तत्काल प्रभाव से, अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (1) के तहत उन्हें केरल संवर्ग में आवंटित करते हैं।

के० के० शर्मा, डेस्क अधिकारी

सं० 14015/12/2004 अ०भा०से०-(I)-ब-भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के विनियम 8 के उप विनियम (1) और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित, भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, केरल राज्य सिविल सेवा से इतर अधिकारियों श्री बी० एम० रिजाराबन मेनन को भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिवीक्षा पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (1) के अंतर्गत केरल संवर्ग में आवंटित करते हैं।

के० के० शर्मा, डेस्क अधिकारी

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 2005

एफ सं० 1/16/2000-मुद्रा-III-अधिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर, श्रीमता आर० जी० रामराजे, मैट्रन, भारत प्रतिभूति मुद्रणालय अस्पताल, नासिक रोड ने दिनांक 28 फरवरी, 2005 (आर०) को सहायक कार्य प्रबंधक के पद का प्रभार त्याग दिया है। उनका नाम उसी तिथि से भारत सरकार प्रतिभूति मुद्रणालय अस्पताल, नासिक रोड की सूची से हटा दिया गया है।

ए० के० खन्ना, अवसर सचिव

एफ सं० 3/20/2004-मुद्रा-III-अधिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर, श्री एस० जी बडै, सहायक कार्य प्रबंधक, भारत प्रतिभूति मुद्रणालय ने दिनांक 28 फरवरी, 2005 (आर०) को सहायक कार्य प्रबंधक के पद का प्रभार त्याग दिया है। उनका नाम उसी तिथि से भारत सरकार प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक रोड की सूची से हटा दिया गया है।

ए० के० खन्ना, अवसर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 18 मार्च 2005

सं० ए० 12011/8/2005-प्रशा० 2—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17-02-2005 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 21/9/2004-सीएस-I (पार्ट) के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय सेवा की सहायक श्रीमती आँगस्थिया मिज को दिनांक 24-02-2005 (अमरावती) में तथा अगले आदेशों तक 6500-200-10500 रुपये के वेतनमान में वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं।

2. अनुभाग अधिकारी के रूप में तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी :—

I. यह तदर्थ नियुक्ति एक काम चलाऊ व्यवस्था के रूप में पूर्णतः अस्थायी होगी, इस नियुक्ति से उन्हें अनिश्चित समय तक इस ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता के दावे का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

II. यह तदर्थ व्यवस्था वरिष्ठता कोटा तथा/अथवा सीमित विभागों प्रतिस्पर्धी परीक्षा (एलडीसीई) द्वारा अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियमित उम्मीदवार के उल्लंघन होने तक जारी रहेगी। तदर्थ आधार पर नियुक्ति पाते वाले के इन दो श्रेणियों में से किसी में भी नियुक्ति के लिए अर्हता प्राप्त न करने की स्थिति में, ऐसे नियमित अधिकारियों के उल्लंघन होने पर उन्हें सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

बी० राम कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 17 मार्च 2005

एफ० सं० 2/19/2003-सिक्का-I—राष्ट्रपति, निम्नलिखित दस अधिकारियों की भारत सरकार टकसाल में तदर्थ आधार पर नियुक्ति को दिनांक 1-4-2005 से तीन महीने की एक और अवधि के लिए अथवा उदा के नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, अति बढ़ाते हैं :—

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	तदर्थ आधार पर वर्तमान पद
(1)	(2)	(3)
1.	श्री कल्याण राम	वरिष्ठ कार्य प्रबंधक
2.	श्री एस० सी० मिज	कार्य प्रबंधक
3.	श्री एस० सी० नायक	कार्य प्रबंधक
4.	श्री सी० मुरलीकृष्णा राव	कार्य प्रबंधक

(1) (2) (3)

5. श्री एम० कोटेश्वरा राव सहायक कार्य प्रबंधक
6. श्री के० वी० सुब्रमनियम सहायक कार्य प्रबंधक
7. श्री एस० के० महापात्र सहायक कार्य प्रबंधक
8. श्री डी० के० दिल्लीर सहायक कार्य प्रबंधक
9. श्री एम० जे० राय मुख्य पारखी
10. श्री रणवीर मंडल उप मुख्य पारखी

2. उक्त तदर्थ नियुक्ति में संबंधित अधिकारियों को नियमित आधार पर नियुक्ति या वरिष्ठता संबंधी दावे का कोई अधिकार नहीं होगा।

अपराजिता चौधरी, उपा सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 22 मार्च, 2005

सं० ए० 12011/8/2005-प्रशा० 2—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17-2-2005 के कार्यालय ज्ञापन सं० 21/9/2004-सीएस-I (पार्ट) के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वित्त संवर्ग के निम्नलिखित सहायकों को दिनांक 11-3-2005 (पूना) में तथा अगले आदेशों तक 6500-200-10,500 रुपये के वेतनमान में वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं :—

सर्वश्री

1. सुरोजित घोष
2. जी० के० शर्मा
3. विश्वजित गुह
4. अशोक कुमार मिह
5. अरविन्द ठाकुर

2. अनुभाग अधिकारियों के रूप में तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी :—

क. यह तदर्थ नियुक्ति एक काम चलाऊ व्यवस्था के रूप में होगी, इस नियुक्ति से उन्हें अनिश्चित समय तक इस ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता के दावे का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

ख. यह तदर्थ व्यवस्था वरिष्ठता कोटा/सीमित विभागों प्रतिस्पर्धी परीक्षा (एलडीसीई) द्वारा अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियमित उम्मीदवार के उल्लंघन होने तक जारी रहेगी। तदर्थ आधार पर नियुक्ति पाते वाले के इन दो श्रेणियों में से किसी में भी नियुक्ति के लिए

कर्मता प्राप्त न करने की स्थिति में, ऐसे नियुक्ति अधिकारियों के उपलब्ध होने पर उन्हें सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

वी० रामकुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 23 मार्च 2005

सं० ए० 19011/6/2005-प्रशा० II—राष्ट्रपति, श्री नसीम कुमार चौधरी, भा० प्र० से० (जम्मू कश्मीर : 94) को आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में दिनांक 12 मार्च, 2005 के पूर्वाह्न से 4 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, उप सचिव नियुक्त करते हैं।

वी० रामकुमार, अवर सचिव

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 मार्च 2005

सं० 11/2005 (ए-19011/6/2005-स्था०)—राष्ट्रपति, श्री सुप्रोब राय, आई ए एस (हि० प्र० : 78) को 18,400-500-22,400 रुपये के वेतनमान में दिनांक 16 मार्च, 2005 के पूर्वाह्न से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, वस्त्र मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर० सुब्रमण्यम, निदेशक

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 मार्च 2005

सं० ए. 19011/5/2005-प्रशा०—राष्ट्रपति, भारी उद्योग विभाग में, श्री अरुण सिंघल, भा० प्रा० से० (यपी : 87) को दिनांक 14.03.2005 के पूर्वाह्न से पांच वर्षों की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

के० के० शर्मा, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 मार्च 2005

सं० 5/2005 (ए-32012/1/2004-ई-I—कामिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23 फरवरी, 2005 के सं० जा० सं० 21/13/2004-सा एस 1 (बा) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा केन्द्रिय सचिवलय सेवा (सा एस एस) के निम्नलिखित उप-सचिव (स्व-स्थाने) और अवर सचिव को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से वाणिज्य एवं

2-12 GI/2005

उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग में तदर्थ आधार पर चयन ग्रेड (उप-सचिव) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

अधिकारी का नाम	कहाँ कार्यरत हैं	चार्ज लेने की तारीख
श्री वी० के० शौबा, उप-सचिव (स्व-स्थाने)	वाणिज्य विभाग	24-2-2005
श्री एम० पी० सिंह, अवर सचिव	वाणिज्य विभाग	02-3-2005

2. उपर्युक्त अधिकारियों की तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित के अध्याधान होगी :—

(I) इस तदर्थ नियुक्ति से उन्हें इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने का अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने का अथवा चयन ग्रेड में दरिद्रता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

(II) तदर्थ नियुक्ति को कोई भी कारण बताए बिना किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

एस० के० तुला, उप-सचिव

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 मार्च 2005

सं० ए-32013/1/98-प्रशा० (खण्ड-II)—दिनांक 11-3-2005 को अधिसूचना के अधिकरण में, कामिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कामिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15 फरवरी 2005 के आदेश सं० 21/40/2004-सी०एस०-I (बा) के तहत वित्त मंत्रालय, वय विभाग के सी०एस० एस० के ग्रेड-I (अवर सचिव) के पद पर तदर्थ आधार पर पदोन्नति पर, इस मंत्रालय में स्थानांतरण हो जाने के परिणामस्वरूप श्री रakesh शर्मा की नियुक्ति की तारीख को अगला आदेश होते तक, 25 फरवरी 2005 के स्थान पर 24 फरवरी 2005 (पूर्वाह्न) पड़ा जाए।

श्रीमती पार्वती कौटिया, अवर सचिव

उत्पादक मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 15 मार्च 2005

सं० ए०-12022/01/2004-स्था० I—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवलय सेवा के अवर सचिव श्री सज्जल को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में दिनांक 2 मार्च, 2005 के पूर्वाह्न पूर्णतया तदर्थ आधार पर उप सचिव के रूप में अर्पित आदेशा तक 12000-16500/- रा० के वेतनमान में नियुक्त करते हैं।

यह नियुक्ति कार्मिक, लोक शिफायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के दिनांक 23-02-2005 के आदेश संख्या 21/13/2004-सी० एस०-1(बी) में निहित शर्तों के अधीन है।

मो० मानिरुजमान, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 16 मार्च 2005

सं० ए-32011/03/2003-प्रश० 1 (ए)—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17 फरवरी, 2005 के का० जा० सं० 21/09/2004-सी० एस० I (पार्ट) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के एक नियमित सहायक श्री कपूर सिंह, की 6500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (बयो टेक्नोलॉजी विभाग) के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में अनुभाग अधिकारी (तदर्थ) के रूप में 15-03-2005 (पूर्वाह्न) से जब तक अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में तारिख उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो जाता अथवा आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ, नियुक्ति पूर्णतः काम-चलाऊ आधार पर की गई है और इस ग्रेड में अनिश्चित काल के लिए बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में सम्मिलित करने अथवा अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरीयता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेंगे।

जे० के० तरिखा, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी 2005

सं० ए०-12034/2/2003-सा० एव० एस०-II—
राष्ट्रपति, एम० ए० एम० सी०, नई दिल्ली में काय चिकित्सा के प्रोफेसर के पद पर कार्यरत केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के विशेषज्ञ ग्रेड-I के अधिकारी डा० जो० के० सचदेव के दिनांक 23-12-2004 को हुए दुखद निधन पर शोक व्यक्त कर है।

अरविन्द कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 2005

सं० ए०-32013/04/2005-स्था०-I—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 3 मार्च, 2005 के आदेश सं० 10/5/2005-ईओ/ (एसएम-I) के अनुसरण में, श्रीमती बस० जालजा, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वि० 74)

ने 7 मार्च, 2005 के पूर्वाह्न से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अवर सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

ए० के० दियोरी, अवर सचिव

दिनांक 11 मार्च 2005

सं० ए० 32014/01/2005-स्थापना-I—राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17 फरवरी, 2005 के कार्यभार ज्ञापन संख्या 21/09/2004-सी० एस०-I के अनुसरण में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संवर्ग में कार्य कर रहे केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित नियमित सहायकों को 9 मार्च, 2005 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक, इस मंत्रालय में 6500-200-10500 रुपये के वेतनमान में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं :-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	एस०सी०एस०एल० वर्ष
1.	श्री नेत्र प्रकाश रामदेव	1990
2.	श्री जे० एस० सिवल	-वही-
3.	श्री पी० डी० एस० रावत	-वही-
4.	श्री प्रभात कुमार	-वही-
5.	श्री बी० एस० चौहान	-वही-
6.	श्री भवानी शंकर नायक	-वही-
7.	श्री दीप पन्त	-वही-
8.	श्री सतीश कुमार	-वही-
9.	श्री रजु लाल मीणा	-वही-
10.	श्री सभापति राम	-वही-
11.	श्री एस० आर० टोप्पो	-वही-

2. उपर्युक्त अधिकारियों की पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन तदर्थ आधार पर होगी :-

1. उपर्युक्त को गई तदर्थ पदोन्नतियां पूर्णतया तदर्थ और एक स्टाफ-गैप व्यवस्था के रूप में है और इससे उन्हें अनिश्चित रूप से ग्रेड में जारी रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने हेतु अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरीयता के लिए दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

2. ये तदर्थ व्यवस्थाएं या तो वरीयता कोटा और/अथवा सोमित विभागीय प्रतियोगात्मक परीक्षा के माध्यम से अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित उम्मीदवारों के उपलब्ध होने तक जारी रह सकती है। यदि तदर्थ रूप से नियुक्ति व्यक्ति उपर्युक्त दोनों श्रेणियों में से किसी में भी

नियमित नियुक्ति के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं, तो उन्हें ऐसे नियमित अधिकारियों के उपलब्ध होने पर सहायक के ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

ए० के० दिथोरी, अवर सचिव

(आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी,
सिद्ध तथा होम्योपैथी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 मार्च 2005

सं० ए-19011/1/2005-आयुष (स्था०-II)—
श्रीमती उमा पिल्ले, भारतीय प्रशासनिक सेवा (उ०प्र० : 68)
ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पत्र सं० 5/3/2005-
ई०ओ० (एस०एम०-I) दिनांक 17-2-2005 के अनुसार
में 28 फरवरी 2005 के अपराह्न से आयुर्वेद, योग व
प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष)
विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव
के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

बी० आर० चुध, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी 2005

सं० 12022/1/2004-स्था०-I—राष्ट्रपति, कृषि
मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) में वर्तमान में उप
सचिव (स्वस्थाने) के रूप में कार्यरत श्री ए० एस० दिल्ली
को इसी विभाग में 6 दिसम्बर 2004 के पूर्वाह्न से अगले
आदेशों तक के लिए तदर्थ आधार पर उप सचिव के रूप में
नियुक्त करते हैं।

2. इस उन्नयन पद पर की गई तदर्थ नियुक्ति से उन्हें
उप सचिव के रूप में नियमित नियुक्ति अथवा ग्रेड में
वर्धिता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

के० डी० उप्रेती, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 3 मार्च 2005

फा० सं० 8-1/91-एस डब्ल्यू सी/एन आर एम—राष्ट्रपति,
कृषि एवं सहकारिता विभाग के एक अद्यतन कार्यालय अखिल
भारतीय मृदा एवं भू-उपयोग सर्वेक्षण में सहायक मृदा सर्वेक्षण
अधिकारी (8000-275-13,500 रु०) के पद पर कार्यरत
डॉ० सी० एम० विमाठी को केन्द्रीय सेवा (पेंशन) नियमावली
1972 के नियम 48-ख के साथ पठित नियम 48-क के अंत-
र्गत 12 मार्च, 2005 के पूर्वाह्न से भारत सरकार को सेवा
से स्वैच्छिक निवृत्ति लेने की अनुमति प्रदान करते हैं।

एम० पी० थामस, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 10 मार्च 2005

सं० 44011/12/2004-स्था०-I—राष्ट्रपति श्री एस० के०
ओझा (सी एस एस) को कृषि एवं सहकारिता विभाग के अंत-
र्गत राष्ट्रीय किसान आयोग (एन सी सी ओफ) में 22-2-2005
के अपराह्न से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक या अगले
आदेशों तक, जो भी पहले हो 18,400-22400/- रु० के
वेतनमान में नवसृजित सहायक (आरिफ) के पद पर नियुक्त
करते हैं।

सरस्वती प्रसाद, निदेशक कार्मिक

नई दिल्ली, दिनांक 23 मार्च 2005

सं० 4-14/2004-वर्गगत IV—राष्ट्रपति, श्रीमती
मिन्नी मैथ्यू, आई० ए० एस० (अ०प्र० अ०प्र० : 76) को दिनांक
28-2-2005 (अपराह्न) से आने केन्द्रीय कार्यकाल की शेष
अवधि के लिए अर्थात् दिनांक 24-10-2008 तक अथवा
आगामी आदेशों तक, कृषि और सहकारिता विभाग के अधीन
नारियल विकास बोर्ड, कोविन में 18,400-500-22,400 रु०
के वेतनमान में अधिस के पद पर नियुक्त करते हैं।

अजय मेहता निदेशक (बागवानी)

नई दिल्ली, दिनांक 20 मार्च 2005

सं० 5-12/2001-आई० एन० एम० (ए)—राष्ट्रपति, कृषि
और सहकारिता विभाग, के अंतर्गत एक अद्यतन कार्यालय
केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान,
फरीदाबाद के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रीय उर्वरक नियंत्रण
प्रयोगशाला, नवो मुंबई में वर्तमान में कार्यरत श्री के० के०
धींगरा, उप-निदेशक (पुराना पदनाम विश्लेषक) (सामान्य
केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'क' राजपत्रित अनुसूचिक), 10,000-
15,200 रु० के वेतनमान में हैं, की तदर्थ नियुक्ति की अवधि
पुनः 17 दिसम्बर, 2004 से 6 जून, 2005 अथवा पद के
नियमित उद्धारों को वापसी अथवा अन्य आदेशों तक, जो भी
पहले हों, तक के लिए बढ़ा रहे हैं।

एस० के० शौतम, अवर सचिव

सं० 5-12/2001-आई० एन० एम० (ए)—राष्ट्रपति,
कृषि और सहकारिता विभाग, के अंतर्गत एक अद्यतन
कार्यालय, केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण
संस्थान, फरीदाबाद के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रीय नियंत्रण
प्रयोगशाला, कल्याणो में वर्तमान में कार्यरत श्री यू० आर०
पाल, सहायक-निदेशक (पुराना पदनाम विश्लेषक) (सामान्य
केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'क' राजपत्रित अनुसूचिक), 8000-
275-13500 रु० के वेतनमान में हैं, की तदर्थ नियुक्ति

की अवधि पुनः 17 दिसम्बर, 2004 से 6 जून 2005 अथवा पद के निर्यात पदधारी को वापसी अथवा अन्य आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक के लिये बढ़ा रहे हैं।

एस० के० गौतम, अवर सचिव

सं० 5-12/2001-आई.एन.एम. (ए)—राष्ट्रपति, अधि और सहकारिता विभाग, के अंतर्गत एक अग्रतन्त्र कार्यालय केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता विभाग और प्रगतिगत संस्था, फरीदाबाद में कार्यरत श्री श्री आर० एन० घोष, संयुक्त निदेशक (पुराना पदनाम मुख्य विश्लेषक) (सामान्य केंद्रों से राशुप 'क' रजस्वित, अननुसचितों), 12,000-16500 रु० के वेतनमान में हैं, को तदर्थ नियुक्ति को अग्रत पुनः 17 दिसम्बर, 2004 से 6 जून, 2005 अथवा पद के निर्यात पदधारी का वापसी अथवा अन्य आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक के लिए बढ़ा रहे हैं।

एस० के० गौतम, अवर सचिव

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय

एन०एच०-4, फरीदाबाद, दिनांक 29 मार्च 2005

सं० ए-19024/1/2005-प्रशा०-1—श्री एस० एस० रावत को 5500-175-9000/- रु० के वेतनमान में वरिष्ठ रस यन्त्र (वर्ग 'ख' रजस्वित) के पद पर उनकी पदोन्नति होने के फलस्वरूप, अस्थायी आधार पर उक्त पद पर 18 जनवरी 2005 (पूर्वाह्न) से विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय में नियुक्त किया गया है।

ए० के० चौपड़ा, अवर सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 मार्च, 2005

सं० ए-32013/1/98-स्था०-1—राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित नियमावली अनुभाग अधिकारियों का तदर्थ आग्रह पर उनके नाम के सत्र उल्लिखित तारखों से, अगले आदेशों तक अवर सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है :-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	कार्यभार ग्रहण की तिथि
	सर्व श्री/श्रीमती	
1.	एच० सा० एन० रावत	16-2-2005 (पूर्०)
2.	कृषि कुमार	22-2-2005 (पूर्०)
3.	श्रीमती निर्मल गोयत	18-2-2005 (पूर्०)
4.	जे० एस० औषधसा	23-2-2005 (पूर्०)
5.	जर्जल राम	18-2-2005 (पूर्०)

एच० सी० बबेज, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 दिसम्बर 2004

सं० ए० 32011/10/2003-ई० I—राष्ट्रपति, श्री डी० झींगरन, आई०एस०एन० (ए०एम० : 86) को, 8-12-2004 के पूर्वाह्न से केन्द्र में उनकी प्रतिनियुक्ति के कार्यभार की शेष अवधि, अर्थात् 2-2-2009 तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय (प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग) में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

के० के० मिश्रा, अवर सचिव

दिनांक 16 दिसम्बर 2004

सं० ए०-32011/12/2004-स्था० I—राष्ट्रपति, श्री सुश्री एन० सुमति, आई०एस०एन० (87) को 15-12-2004 के अपराह्न से पांच वर्ष अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग) में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

के० के० मिश्रा, अवर सचिव

दिनांक 15 मार्च, 2005

सं० एफ० 15-2099/2004-स्था०-1—राष्ट्रपति द्वारा अधिनियम 1957 (1957 का 14) का धारा 10 की उपधारा (I) के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा इस मंत्रालय में श्री आर० ए० एस० कुशनाह, अनुभाग अधिकारी को श्रीमती सुमिता सिंह, अनुभाग अधिकारी के स्थान पर उप राजस्वदार, कर्नाटकराई के रूप में तत्काल प्रभाव से नियुक्त करता है।

के० के० मिश्रा, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 22 मार्च 2005

सं० ए-12034/2/2005-स्था० (प.ट.)—राष्ट्रपति, इस मंत्रालय में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार) के निजी कार्यालय में सहायक निजी सचिव, श्री बड़लाल मांडेली को 10 जनवरी, 2005 के अपराह्न से पदभार मुक्त करते हैं।

एल० सी० मेहरा, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 18 मार्च 2005

सं० 3(5)/2003-का०-I—राष्ट्रपति जी ने इस विभाग के श्री बालक राम जड़ोदिया, वैज्ञानिक अधिकारी 'एसबी' (कर्मचारी कोड सं० 165) को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में तत्काल प्रभाव से 8000-275-13500/- रु० के वेतनमान में वैज्ञानिक 'बी' नियुक्त किया है।

राजकुमार मनचन्दा, उप निदेशक

सं० 3(5)/2004-का०-I—राष्ट्रपति जी ने इस विभाग के निम्नलिखित वैज्ञानिक 'बी' को तत्काल प्रभाव से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में 10000-325-15200/- रुपये के वेतनमान में वैज्ञानिक 'सी' नियुक्त किया है :-

1. श्री टी० सन्तोष (कर्मचारी कोड संख्या 867)
2. श्री संजय कुमार व्यास (कर्मचारी कोड संख्या 869)
3. कु० रेखा श्रोवर (कर्मचारी कोड संख्या 839)
4. श्री बी० एम० गुप्ता (कर्मचारी कोड संख्या 844)
5. श्री डी० के० जे० लकड़ा (कर्मचारी कोड संख्या 251)
6. श्री वाई० एस० तंवर (कर्मचारी कोड संख्या 264)
7. श्री श्रीराम राम (कर्मचारी कोड संख्या 261)
8. श्रीमती कामिनी मलिक (कर्मचारी कोड संख्या 254)
9. श्रीमती वीना शर्मा (कर्मचारी कोड संख्या 263)
10. श्री आर० एस० वर्मा (कर्मचारी कोड संख्या 257)

राजकुमार मनचन्दा, उप निदेशक

सं० 3(5)/2004-का०-I—राष्ट्रपति जी ने इस विभाग के निम्नलिखित वैज्ञानिक 'सी' को तत्काल प्रभाव से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में 12000-375-16500/- रुपये के वेतनमान में वैज्ञानिक 'डी' नियुक्त किया है :-

1. श्री ए० के० कौशिक (कर्मचारी कोड संख्या 222)
2. श्री ओम वीर सिंह (कर्मचारी कोड संख्या 232)
3. श्री डी० पी० सिंह (कर्मचारी कोड संख्या 253)
4. श्रीमती संगीता अरोड़ा (कर्मचारी कोड संख्या 259)
5. श्री डी० वी० एल० एन० राव (कर्मचारी कोड संख्या 249)

3-12 GI/2005

6. श्रीमती सविता उन्नेजा (कर्मचारी कोड संख्या 841)
7. डॉ० ए० के० गर्ग (कर्मचारी कोड संख्या 840)
8. श्री विजय कुमार (कर्मचारी कोड संख्या 850)
9. श्री एम० के० जैन (कर्मचारी कोड संख्या 852)

राजकुमार मनचन्दा, उप निदेशक

सं० 3(5)/2004-का०-I—राष्ट्रपति जी ने इस विभाग के निम्नलिखित वैज्ञानिक 'डी' को तत्काल प्रभाव से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में 14300-400-18300/- रुपये के वेतनमान में वैज्ञानिक 'ई' नियुक्त किया है :-

1. श्रीमती अर्चना दुरेजा (कर्मचारी कोड संख्या 808)
2. श्री तारा शंकर (कर्मचारी कोड संख्या 242)
3. श्री एस० के० मारवाह (कर्मचारी कोड संख्या 240)
4. श्री ओ० पी० शर्मा (कर्मचारी कोड संख्या 231)

राजकुमार मनचन्दा, उप निदेशक

(डाक विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 18 मार्च 2005

सं० 2-1/97-प्रशा०—प्रतिनियुक्ति आधार पर कनिष्ठ विश्लेषक के तौर पर कार्यरत, श्री एस० पी० आर्य की 10-03-2005 (अपराह्न) से अनुभाग अधिकारी के उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित किया जाता है।

जी० पी० पिल्लै, सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, दिनांक 2 मार्च 2005

सं० 98/स्था० (राज० भ०) I/10/I—रेलवे बोर्ड को दिनांक 15-12-2004 को आविसूचना सं० 98/स्था० (राज० भ०) I/10/I की तीसरी पंक्ति में उल्लिखित तारीख 8-3-1999 को 4-3-1999 पढ़ा जाए।

ममता कण्डवाल, उप निदेशक-स्था० (जी आर)

पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 मार्च 2005

सं० ए०-12025/1/2005-स्था० II—राष्ट्रपति, श्री अभिजीत कुमार को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग, नई दिल्ली में दिनांक 09-03-2005 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक सहायक कार्यकारी अभियंता (सिविल) के पद पर वेतनमान रु० 8000-275-13500 में नियुक्त करते हैं।

डॉ० एन० सी० कौशिक, अवर सचिव

सं० ए-32011/2/2003-ई-II-(भा)—राष्ट्रपति, श्री चिरंजी लाल, प्रमुख परियोजना कम्प्यूटर, को सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग, नई दिल्ली, में दिनांक 16-03-2005 (पू०) से अगले आदेश तक मुख्य प्रारूप-

कार (वर्ग "ख") राजपत्रित के पद पर वेतनमान रु० 6500-200-10,500 में नियुक्त करते हैं।

डॉ० एन० सी० कौशिक, अवर सचिव

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 18 मार्च, 2005

सं० 2/2/04-प्रशा० I—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (ई० ओ०) के का० जा० सं० 20/14/2004-ईओ (एम एम) दिनांक 1 मार्च, 2005 के अनुसरण में श्री देविन्दर सिंह मलिक, आई आई एस (85) ने दिनांक 7 मार्च, 2005 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में निदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है। उनकी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल दिनांक 25-6-2006 तक उनकी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की शेष अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, होगी।

जे० मजूमदार, अवर सचिव

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110 001, the 5th March 2005

No. PF. 2127(3)/GN-5404/2005/AN-I—The Speaker is pleased to appoint Smt. Kirti Yadav, Translator in the scale of pay of Rs. 7450-11500 to the grade of Assistant Editor in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 on ad-hoc basis with effect from 4th March 2005, until further orders.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

No. PF. 2869 (3)/GN-5397/2005/AN-I—The Speaker is pleased to appoint Shri Radhey Shyam, Controller of Printing & Publications in the scale of pay of Rs. 12750-16500 to the grade of Chief Controller of Printing & Publications in the scale of pay of Rs. 15100-400-18300 with effect from 4th March, 2005, until further orders.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

No. PF. 2641 (3)/GN-5403/2005/AN-I—The Speaker is pleased to appoint the following Translators in the scale of pay of Rs. 7450-11500 to the grade of Assistant Editor in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500, in the order shown below, with effect from 4th march, 2005, until further orders :—

1. Shri Srivilasa Pandey
2. Smt. Indu Bakshi
3. Shri Suresh Kumar Suneja

2. They will be on probation in the grade of Assistant Editor for a period of 2 years with effect from 4th March, 2005 upto 3rd March, 2007.

3. Their *inter-se-seniority* in the grade of Assistant Editor will be regulated in terms of R&CS Order No. PDA-1076/2003 dated 20th December, 2003.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

No. PF. 2264(3)/GN-5402/2005/AN-I—The Speaker is pleased to appoint the following Assistant Editors in the scale of pay of Rs. 8000-13500 to the grade of Editor in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200, in the order shown below, with effect from 4th March, 2005, until further orders :—

1. Shri J. B. S. Rawat
2. Km. Suman Rattan

4—12 GU/2005

2. Their *inter-se-seniority* in the grade of Editor will be regulated in terms of R&CS Order No. PDA-1076/2003 dated 20.12.2003.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

No. PF. 1882 (3)/GN-5401/2005/AN-I—The Speaker is pleased to appoint Shri N. C. Khulbe, Editor in the scale of pay of Rs. 10000-15200 to the grade of Senior Editor in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500 with effect from 4th March, 2005, until further orders.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

No. PF. 1328(3)/GN-5400/2005/AN-I—The Speaker is pleased to appoint the following Managers of Printing in the scale of pay of Rs. 8000-13500 to the grade of Assistant Director (Printing & Publications) in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200, in the order shown below, with effect from 4th March, 2005, until further orders :—

1. Smt. Suman Talwar
2. Shri Ravi Kumar Gupta

2. Their *inter-se-seniority* in the grade of Assistant Director (Printing & Publications) will be regulated in terms of R&CS order No. PDA-1076/2003 dated 20.12.2003.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

No. PF. 1130(3)/GN-5399/2005/AN-I—The Speaker is pleased to appoint Shri S. K. Khanna, Assistant Director (PP) in the scale of pay of Rs. 10000-15200 to the grade of Assistant Controller of Printing & Publications in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500 with effect from 4th March, 2005, until further orders.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

No. PF. 962(3)/GN-5398/2005/AN-I—The Speaker is pleased to appoint Shri S. K. Verma, Assistant Controller of Printing & Publications in the scale of pay of Rs. 12000-16500 to the grade of Controller of Printing & Publications in the scale of pay of Rs. 12750-16500 with effect from 4th March, 2005, until further orders.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 28th March 2005

No. A-12011/01/2003/SS—In continuation of Cabinet Secretariat notification No. A-12011/01/2003/SS dated 27th December 2004, the sanctioned strength of the Special Protection Group was further reviewed. The sanction of the

President is hereby accorded to the creation of 159 additional posts in different ranks. Consequently, the revised strength in the various ranks in Groups "A", "B", "C" & "D" in the SPG, alongwith their pay scales, is notified hereby with immediate effect, as shown in the accompanying Annexure.

D. C. S. RAO, Under Secy.

ANNEXURE**STATEMENT SHOWING DETAILS OF POSTS AND THEIR PAY SCALES IN THE SPECIAL PROTECTION GROUP**

Sl. No.	Designation of the Post	Existing Posts	Additional Posts Sanctioned	Total	Pay scales Rs.
1	2	3	4	5	6
01.	Director	01	—	01	22400-525-24500 18400-500-22400
02.	Inspector General	02	—	02	18400-500-22400
03.	Deputy Inspector General	10	—	10	16400-450-20000
04.	Assistant Inspector General	44	04	48	14300-400-18300 12000-375-16500 10000-325-15200
05.	Chief Medical Officer	01	—	01	14300-400-18300 12000-375-16500
06.	Medical Officers	05	—	05	12000-375-16500 10000-325-15200 8000-275-13500
07.	Psychiatrist	01	—	01	14300-400-18300 12000-375-16500 10000-325-15200
08.	Vet Surgeon	01	—	01	10000-325-15200
09.	Sr. Security Officer	74	10	84	10000-325-15200 8000-275-13500 6500-200-10500
10.	Sr. Security Officer (Technical)	12	—	12	10000-325-15200 8000-275-13500 6500-200-10500
11.	Sr. Security Officer (Ministerial)	12	—	12	10000-325-15200 8000-275-13500 6500-200-10500
12.	Section Officer	02	—	02	6500-200-10500
13.	Private Secretary	02	—	02	6500-200-10500
14.	Security Officer-I	356	78	434	6500-200-10500
15.	Security Officer-II	535	11	546	5500-175-9000
16.	Jr. Security Officer	04	—	04	4000-100-6000
17.	Security Officer-I (T)	48	—	48	6500-200-10500

1	2	3	4	5	6
18.	Security Officer-II (T)	45	—	45	5500-175-9000
19.	Sr. Security Assistant (T)	35	—	35	3200-85-4900
20.	Security Asstt. (T)	16	—	16	3050-75-3950-80-4590
21.	Security Officer-I (WT)	10	—	10	6500-200-10500
22.	Security Officer-II (WT)	39	—	39	5500-175-9000
23.	Junior Security Officer (WT)	29	—	29	4000-100-6000
24.	Senior Security Assistant (WT)	24	—	24	3200-85-4590
25.	Security Officer-I (M)	46	—	46	6500-200-10500 5500-175-9000
26.	Assistant	04	—	04	5500-175-9000 5000-150-8000
27.	Steno Gd. II	04	—	04	5500-175-9000 5000-150-8000
28.	Security Officer-II (M)	36	—	36	5500-175-9000 4000-100-6000
29.	UDC	10	—	10	4000-100-6000
30.	Steno Gd. III	03	—	03	4000-100-6000
31.	Senior Security Assistant (M)	05	—	05	3200-85-4900
32.	LDC	02	—	02	3050-75-3950-80-4590
33.	Sr. Security Assistant	257	21	278	3200-85-4900
34.	Security Assistant	340	—	340	3050-75-3950-80-4590
35.	Sr. Security Assistant (MT)	241	27	268	3200-85-4900
36.	Security Assistant (MT)	192	08	200	3050-75-3950-80-4590
37.	Security Officer-II (MT)	04	—	04	5500-175-9000
38.	Junior Security Officer (MT)	21	—	21	4000-100-6000
39.	Water Carrier	02	—	02	2550-55-2660-60-3200
40.	Accountant	01	—	01	5500-175-9000
41.	Junior Accountant	02	—	02	4500-125-7000
42.	Lab. Assistant	01	—	01	3200-85-4900
43.	Lab. Tech.	01	—	01	3200-85-4900
44.	Staff Nurse	01	—	01	5000-150-8000
45.	Pharmacist	02	—	02	4500-125-7000
46.	Asstt. Librarian	01	—	01	5000-150-8000
47.	A. N. Midwife	01	—	01	3200-85-4900
48.	Nursing Asstt.	01	—	01	2550-55-2660-60-3200
49.	Frash	02	—	02	2550-55-2660-60-3200
50.	Daftry	02	—	02	2610-60-3150-65-3540
51.	Physiotherapist	01	—	01	4500-125-7000
Total		2491	159	2650	

**MINISTRY OF LAW & JUSTICE
(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)**

New Delhi, the 16th March 2005

No. 32013/2/2005-Admn. IV (LA)—Pursuant to Department of Personnel & Training's O. M. No. 21/13/2004-C.S.I (B) dated 23.02.2005, the President is pleased to appoint Shri Daya Chand, Grade-1(Under Secretary), Department of Shipping, Ministry of Road Transport & Highways as Deputy Secretary (selection Grade of CSS) on ad-hoc basis in Department of Legal Affairs, Ministry of Law & Justice w. e. f. forenoon of 01.03.2005.

2. The ad-hoc promotion shall not confer him any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade.

3. Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

YASHWANT SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 9th March 2005

No. 17012/9/1999-ISD. VI:—On completion of his tenure, Justice (Retd) Jai Singh Sekhon relinquished the charge of the post of Chief Commissioner, Gurdwara Elections, Chandigarh on the afternoon of 28.2.2005.

V. K. GUPTA, Dy. Secy. (IS. I)

The 23rd March 2005

No. I-14011/18/2004-IPS. I—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 18.03.2005, approved the Select List of 2004, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 01.12.2004, containing the names of the following State Police Service Officers of West Bengal, towards filling up fourteen substantive vacancies in the IPS West Bengal Cadre during 2004.

Sl. Name of the officer No.	Date of Birth
1	2
3	
(S/Shri)	
1*. Tshering Finehuk Sherpa (ST)	20.09.1954
2. Swapan Kumar Maity	19.03.1954
3. Debashish Ghosh	28.03.1954
4. Subhashish Chatterjee	17.09.1958
5. Dilip Bandhopadhyay	12.12.1955
6. Tapas Ranjan Ghosh	29.06.1953

1	2	3
7.	Sankar Chakraborty	17.01.1954
8.	Mehboob Rahaman	14.01.1958
9.	Biswarup Ghosh	21.05.1953
10#.	Sunil Kumar Halder	02.09.1958
11.	Shyamal Kumar Bhattacharya	07.07.1953
12.	Kali Sankar Manna	25.10.1950
13.	Narendra Nath Halder	14.03.1951
14.	Sakeel Ahmed	04.02.1957

* The name at Sl. No. 1 has been included in the list provisionally subject to his clearance in the disciplinary proceedings pending against him and grant of integrity certificate by the state Govt.

The name at Sl. No. 10 has been included in the list provisionally subject to his clearance in the criminal case pending against him as subsequently informed by the State Government in their letter No. 302-PS Cell/3P-02/2004 dated 10.02.2005 and 21.02.2005.

O. S. ASHOK, Under Secy.

No. I-14011/18/2004-IPS.I—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of West Bengal Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the cadre of West Bengal under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) rules, 1954. The appointments will take effect from the date of issue of this notification.

SELECT LIST-2004

Sl. Name of the officer No.	Date of Birth
1	2
3	
(S/Shri)	
1. Swapan Kumar Maity	19.03.1954
2. Debashish Ghosh	28.03.1954
3. Subhashish Chatterjee	17.09.1958
4. Dilip Bandhopadhyay	12.12.1955
5. Tapas Ranjan Ghosh	29.06.1953
6. Sankar Chakraborty	17.01.1954
7. Mehboob Rahaman	14.01.1958
8. Biswarup Ghosh	21.05.1953

1	2	3
09.	Shyamal Kumar Bhattacharya	07.07.1953
10.	Kali Sankar Manna	25.10.1950
11.	Narendra Nath Halder	14.03.1951
12.	Sakeel Ahmed	04.02.1957

O. S. ASHOK, Under Secy.

The 28th March 2005

No. I-18012/2/2005-IPS-I.—In exercise of the powers conferred by Rule 3-A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Police Service, Shri B. S. Shinde, member of the Indian Police Service, allocated to the Cadre of Maharashtra with effect from 01.12.2001.

O. S. ASHOK, Under Secy.

**MINISTRY OF PERSONNEL, P. G. & PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)**

New Delhi, the 22nd March 2005

No. A. 32014/1/2005-Ad. I.—The President is pleased to appoint the following permanent Assistants of the CSS as Section Officers in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 on ad-hoc basis in the Department of Personnel & Training with effect from the date mentioned against each and until further orders subject to the conditions laid down in DOPT's OM No. 21/9/2004-CS (Pt.) dated 17.02.2005 :

Sl. No.	Name	Date from which appointed
	S/Shri	
1.	Kartar Singh	24.02.2005 (F. N.)
2.	Rajen Kabui	24.02.2005 (F. N.)
3.	Rajesh Nagpal	25.02.2005 (A. N.)
4.	Ram Avtar Goel	25.02.2005 (A. N.)
5.	Smt. Anjali Anand	25.02.2005 (A. N.)
6.	Shamshad Ahmed Ansari	25.02.2005 (A. N.)
7.	Maneesh Rajan	25.02.2005 (A. N.)
8.	Mohan Lal Meena	25.02.2005 (A. N.)

N. K. PUSHPAKARAN, Dy. Secy.

New Delhi, the 23rd March 2005

No. 14013/04/2001-AIS-III.—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service, the following members

of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Madhya Pradesh, with effect from the dates shown against them:—

Sl. No.	Name	Batch	Date of Confirmation
1.	Shri D. P. Tiwari	1985	18.03.1992
2.	Shri D. S. Rai	1987	17.06.1994

G. C. PANDEY, Under Secy.

New Delhi, the 24th March 2005

No. 14015/12/2004-AIS(I)-A.—In terms of the provisions contained in sub-regulation (1) of Regulation 7 of the Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997, the Union Public Service Commission has approved the 2004 Select List containing the name of Sh. V. M. Vijayaraghava Menon (D.O.B. 03.08.1950), a member of the non-State Civil Service of the State of Kerala prepared by the Selection Committee in its meetings held on 30th December 2004, towards filling up one (01) existing vacancy in the Kerala Cadre of the Indian Administrative Service, during 2004.

K. K. SHARMA, Desk Officer

No. 14015/12/2004-AIS(I)-A.—In terms of the provisions contained in Sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has approved the Select Lists of 2003 and 2004 for the Kerala Cadre, containing the names of the following members of the State Civil Service of the State of Kerala, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 30th December, 2004 towards filling up 01 (one) and 01 (one) vacancies during 2003 and 2004 respectively in the Indian Administrative Service :—

SELECT LIST 2003

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	S/Shri	
*@0.	K. R. Rajan (ST)	02.12.1956
*1.	B. Mohanan (SC)	10.04.1955

@ The officer at Sl. No. 0 has been included in addition to the zone and in addition to the size of the Select List.

* The officer at Sl. No. 0 and Sl. No. 1 have been included in the Select List provisionally subject to their clearance in the disciplinary proceedings pending against them and grant of integrity certificate by the State Government.

SELECT LIST 2004

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	S/Shri	
*@0A.	K. R. Rajan (ST)	02.12.1956
*0B.	B. Mohanan (SC)	10.04.1955
1.	A. Shajahan	12.07.1961

@ The officer at Sl. No. 0A has been included in addition to the zone and in addition to the size of the Select List.

* The officer at Sl. No. 0A and Sl. No. 0B have been included in the Select List provisionally subject to their clearance in the disciplinary proceedings pending against them and grant of integrity certificate by the State Government.

K. K. SHARMA, Desk Officer

No. 14015/12/2004-AIS(I)-B.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint Sh. A. Shahjahan, State Civil Service officer of Kerala to the Indian Administrative Service against the vacancy for the year 2004 on probation with immediate effect until further orders and to allocate him to the Kerala Cadre, under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954.

K. K. SHARMA, Desk Officer

No. 14015/12/2004-AIS(I)-B.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of Regulation 8 of the Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint Sh. V. M. Vijayaraghava Menon, a non-State Civil Service officer of Kerala to the Indian Administrative Service on probation with immediate effect until further orders and to allocate him to the Kerala Cadre, under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954.

K. K. SHARMA, Desk Officer

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 9th March 2005

F. No. 1/16/2000-CY-III.—On attaining the age of superannuation, Smt. R. G. Ramraje, Matron, India Security Press Hospital, Nashik Road relinquished the charge of the post of Matron on 28th February, 05 (AN). Her name stands deleted from the rolls of India Security Press Hospital, Nashik Road with effect from that date.

A. K. KHANNA, Under Secy.

F. No. 3/20/04-CY-III.—On attaining the age of superannuation, Shri S. G. Barde, Assistant Works Manager, India Security Press relinquished the charge of the post of Assistant Works Manager on 28th February, 05 (AN). His name stands deleted from the rolls of India Security Press, Nashik Road with effect from the date.

A. K. KHANNA, Under Secy.

New Delhi, the 16th March 2005

No. A. 12011/8/2005-Admn. II.—In pursuance of O. M. No. 21/9/2004-CS. I (Pt.) dated 17.2.2005 of Department of Personnel & Training, the President is pleased to appoint Smt. Agusthia Minj, an Assistant of CSS as Section Officer on ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs w. e. f. 24.2.2005 (AN) and until further orders.

2. The ad-hoc promotion as Section Officer will be subject to the following terms and conditions :

- (i) Ad-hoc promotions will be purely temporary as a stop-gap arrangement and shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer's Grade.
- (ii) Ad-hoc arrangement may continue till regular candidates in the Section Officer grade are available either through Seniority Quota and/or Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). In the event of the adhoc appointees not qualifying for regular appointment in any of these two categories, they will be reverted to the Assistant Grade on availability of such regular officers.

V. RAM KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 17th March 2005

No. 2/19/2003-COIN. I.—The President is pleased to extend the appointment of the following ten officers in the

India Government Mints on ad-hoc basis for another 3 Months w. e. f. 01.04.2005 or till the posts are filled up on regular basis or further orders whichever is the earlier.

Sl. No.	Name of Officer	Post promoted to on adhoc basis
	S/Shri	
1.	C. Kalyan Ram	SWM
2.	S. C. Minz	WM
3.	S. C. Naik	WM
4.	Ch. Muralikrishna Rao	WM
5.	M. Koteswara Rao	AWM
6.	K. V. Subramaniam	AWM
7.	S. K. Mahapatra	AWM
8.	D. K. Dhillor	AWM
9.	M. J. Ray	CA
10.	Ranbir Mondal	DCA

2. The ad-hoc appointment will not confer on the officers any right for regular appointment or seniority.

APARAJITA CHOWDHURY, Dy. Secy.

New Delhi, the 22nd March 2005

No. A-12011/8/2005-Admn. II—In pursuance of O. M. No. 21/9/2004-CS I (Pt.) dated 17.2.2005 of Department of Personnel & Training, the President is pleased to appoint the following Assistants of CSS of Finance Cadre, as Section Officer on ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500 in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs w.e.f. 21.3.2005 (FN) and until further orders :—

S/Shri

1. Surojit Ghosh
2. G. K. Sharma
3. Biswajit Guha
4. Ashok Kumar Singh
5. Arvind Thakur

The ad-hoc appointments of the above Assistants as Section Officer will be subject to the following terms and conditions :

- a. Ad-hoc appoints being a stop gap arrangement, shall not confer on them any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer's Grade.
- b. Ad-hoc arrangements will continue will continue till regular candidates in the Section Officer grade are

available through Seniority Quota/Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). In the event of the ad-hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they will be reverted to the Assistant Grade on availability of such regular Officers.

V. RAMKUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 23rd March 2005

No. A. 19011/6/2005-Admn. II—The President is pleased to appoint Shri Navin Kumar Choudhary, IAS (JK : 94), as Deputy Secretary in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, with effect from the forenoon of 22nd March 2005 for a period of four years or until further orders, whichever event occurs the earliest.

V. RAMKUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 16th March 2005

No. 11/2005 (A-19011/6/2005-Estt)—The President is pleased to appoint Shri Sudripta Roy, IAS (HP : 78) as Joint Secretary in the Ministry of Textiles, in the pay scale of Rs. 18400-500-22400 for a period of five years with effect from the forenoon of 16th march, 2005 or until further orders, whichever event takes place earlier.

R. SUBRAHMANYAM, Director

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES & PUBLIC ENTERPRISES (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY)

New Delhi, the 14th March 2005

No. A-19011/5/2005-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Arun Singhal, IAS (UP : 87), as Director in the Department of Heavy Industry with effect from the forenoon of 14.03.2005 for a period of five years of until further orders, whichever event occurs the earliest.

K. K. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY (DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 16th March 2005

No. 5/2005 (A-32012/1/2004-E. I):—In pursuance of Department of Personnel & Training's O. M. No. 21/13/2004-CS. I (B), dated the 23rd February, 2005, the President is pleased to appoint the following Deputy Secretary (in-situ) and Under Secretary of Central Secretariat Service (CSS) to Selection Grade (Deputy Secretary) on ad-hoc basis in the Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce with effect from the dates shown against them :—

Sl. No.	Name of the officer	Where working	Date of taking over charge
1.	S/Shri V. K. Gauba, Dy. Secy. (in-Situ)	Department of Commerce	24.02.2005
2.	M. P. Singh, Under Secretary	Department of Commerce	02.03.2005

2. The ad-hoc appointment of the above Officers is subject to the following:—

(iii) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade.

(iv) Ad-hoc appointments may be terminated at any time without giving any reason therefor

S. K. TULI, Dy Secy.

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 24th March 2005

No. A-32013/1/98-Adm. (Vol. II)—In supersession of Notification dated 11.3.2005, the date of appointment of Shri Rakesh Sharma, consequent upon his transfer from Ministry of Finance, Department of Expenditure to this Ministry on promotion to Grade I (Under Secretary) of CSS on ad-hoc basis vide Ministry of Personnel, PG and Pensions, Department of Personnel & Training's Order No. 21/40/2004-CS. I(B), dated 15th February, 2005, may be please be read as 24th February, 2005 (FN) instead of 25th February, 2005 until further orders.

Smt. PARVATI KAUTIA, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION (DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 15th March 2005

No. A-12022/1/2004-E. I—The President is pleased to appoint Shri Sat Pal, Under Secretary of Central Secretariat Service (CSS) as Deputy Secretary purely on ad-hoc basis in the Department of Food & Public Distribution w.e.f. the forenoon of 2nd March, 2005 in the pay scale of Rs. 12000-16500/- until further orders.

The appointment is subject to the conditions laid down in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel & Training) order No. 21/13/2004-CS.I (B) dated 23.2.2005.

MOHD. MONIRUZZAMAN, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 16th March 2005

No. A. 32011/03/2003-Admn. I (A).—In pursuance of Department of Personnel & Training's O. M. No. 21/09/2004-C. S. I (Pt) dated 17th February, 2005, the President is pleased to appoint Shri Kapoor Singh, a regular Assistant of CSS in Ministry of Health and Family Welfare as Section Officer (ad-hoc) in the scale of Rs. 6500-200-10,500 in the Central Secretariat Service Cadre of Ministry of Science and Technology (Department of Bio-technology) with effect from 15.03.2005 (F. N.) until regular candidate in Section Officer's Grade is available or until further orders.

2. The ad-hoc appointment is made purely as a stop-gap measure and shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers' Grade.

J. K. TRIKHA, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE (DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi, the 11th February 2005

No. A. 12034/2/2003-CHS.III—The President announces with deep regret the said demise on 23.12.2004 of Dr. G. K. Sachdev, an officer of the specialist Grade I of Central Health Service and was holding the post of Professor of Medicine, MAMC, New Delhi.

ARVIND KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 9th March 2005

No. A. 32013/04/05-Estt. I—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 10/5/2005-EO(SM. I) dated the 3rd March, 2005, Smt. S. Jalaja, IAS (BH : 74) has assumed charge of the post of Additional Secretary in the Ministry of Health & Family Welfare with effect from the forenoon of 7th March, 2005.

A. K. DEORI, Under Secy.

The 11th March, 2005

No. A. 32014/01/2005-Estt. I—The President is pleased to appoint the following regular Assistants of CSS working in the cadre of Ministry of Health & Family Welfare to the Section Officers grade of CSS in this Ministry in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 on ad-hoc basis w.e.f. the forenoon of 9th March, 2005 in pursuance to the Department of Personnel & Training's O. M. NO. 21/09/2004-CS. I dated the 17th February, 2005, until further orders.

Sl. No.	Name of the Officers	SCSL Year
1.	Shri Netra Prakash Ramdev	1990
2.	Shri J. S. Siwal	1990
3.	Shri P. D. S. Rawat	1990
4.	Shri Prabhāt Kumar	1990
5.	Shri B. S. Chauhan	1990
6.	Shri Bhavani Shankar Nayak	1990
7.	Shri Deep Pant	1990
8.	Shri Satish Kumar	1990
9.	Shri Raju Lal Meena	1990
10.	Shri Sabapati Ram	1990
11.	Shri S. R. Toppo	1990

2. The promotion of the above mentioned officers on ad-hoc basis will be subject to the following conditions :

1. The ad-hoc promotions made above are purely temporary and as a stop gap arrangement and shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers grade of CSS.
2. Ad-hoc arrangements may continue till regular candidates in Section Officers grade are available either through Seniority Quota and/or Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). In the event of ad-hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they will be reverted to the Assistant's Grade on availability of such regular officers.

A. K. DEORI, Under Secy.

[DEPARTMENT OF AYURVEDA, YOGA &
NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND
HOMOEOPATHY (AYUSH)]

New Delhi, the 3rd March 2005

No. A-19011/1/2005-Ayush (E. II)—In pursuance of Department of Personnel & Training's Communication No. 5/3/2005-EO (SM-I) dated 17.02.2005, Smt. Uma Pillai, IAS (UP : 68) has assumed the charge of the post of Secretary, Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH), M/o Health & Family Welfare with effect from the afternoon of 28th February, 2005.

B. R. CHUGH, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE &
COOPERATION)

New Delhi, the 14th February 2005

No. 12022/1/2004-E-I—The President is pleased to appoint Shri A. S. Dhillon, presently working as Deputy Secretary (In-situ) in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture & Cooperation) as Deputy Secretary on ad-hoc basis in the same Department with effect from the forenoon of 6th December, 2004, until further orders.

2. The ad-hoc appointment against the upgraded post will not entitle him to any claim for regular appointment as Deputy Secretary or seniority in the Grade.

K. D. UPRETI, Under Secy.

New Delhi, the 3rd March 2005

F. No. 8-1/91-SWC/NRM-III—The President is pleased to permit Dr. C. M. Tripathi, Assistant Soil Survey Officer (Rs. 8000-275-13500) in the All-India Soil & Land Use Survey, a Subordinate office under the Department of Agriculture and Cooperation to retire voluntarily from Government Service with effect from the forenoon of 12th March 2005 under Rule 48-A, read with Rule 48-B of the Central Services (Pension) Rules, 1972.

M. P. THOMAS, Under Secy.

New Delhi, the 10th March 2005

No. 44011/12/2004-E-I—The President is pleased to appoint Shri S. K. Ojha (CSS) as Adviser (Economic) in the National Commission on Farmers (NCF) under the Department of Agriculture & Cooperation in the pay scale of Rs. 18,400-22,400/- w.e.f. the afternoon of 22.2.2005, till the date of his superannuation or until further orders, whichever event takes place earlier, against a newly created post.

SARASWATI PRASAD, Director (Personnel)

New Delhi, the 23rd March 2005

F. No. 4-14/2004-Hort. IV—The President is pleased to appoint Smt. Minnie Mathew, IAS (AP : 76) to the post of Chairman, Coconut Development Board, Cochin under the Department of Agriculture and Cooperation in the pay scale of Rs. 18400-500-22400 on deputation basis with effect from 28.2.2005 (AN) for the balance period of her central tenure i.e. up to 24.10.2008 or until further orders.

AJOY MEHTA, Director (Hort.)

New Delhi, the 30th March 2005

No. 5-12-/2001-INM-A—The President is pleased to extend ad-hoc appointment of Shri K. K. Dhingra as Deputy Director (old designation Senior Analyst) (General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial) in the scale of pay of Rs. 10,000-15,200, presently posted at Regional Fertiliser Control Laboratory, Navi Mumbai under Central Fertiliser Quality control and Training Institute, Faridabad a subordinate office under the Department of Agriculture and Cooperation for further period beyond 17th December, 2004 to 6th June, 2005 or till the return of the regular incumbent of the post or until further orders, whichever is earlier.

S. K. GAUTAM, Under Secy.

No. 5-12/2001-INM-A—The President is pleased to extend ad-hoc appointment of Shri U. R. Pal as Assistant Director (old designation Analyst) (General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial) in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/-, presently posted at Regional Fertiliser Control Laboratory, Kalyani under Central Fertiliser Quality control and Training Institute, Faridabad, a subordinate office under the Department of Agriculture and Cooperation for further period beyond 17th December, 2004 to 6th June, 2005 or till the return of the regular incumbent of the post or until further orders, whichever is earlier.

S. K. GAUTAM, Under Secy.

No. 5-12/2001-INM-A—The President is pleased to extend ad-hoc appointment of Shri R. N. Ghosh as Joint Director (old designation Chief Analyst) (General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial) in the scale of pay of Rs. 12,000-16,500/-, presently posted at Central Fertiliser Quality Control and Training Institute, Faridabad a subordinate office under the Department of Agriculture and Cooperation for further period beyond 17th December, 2004 to 6th June, 2005 or till the return of the regular incumbent of the post or until further orders, whichever is earlier.

S. K. GAUTAM, Under Secy.

(DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION)

N. H. IV, Faridabad, the 29th March 2005

No. A-19024/1/2005-A. I—Consequent upon his promotion to the post of Senior Chemist (Group B, Gazetted) in the pay-scale of Rs. 5,500-175-9,000/-, Shri S. S. Rawat has been appointed to the said post on temporary basis in the Directorate of Marketing and Inspection with effect 18th January, 2005 (Forenoon).

A. K. CHOPRA, Under Secy.

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 10th March 2005

No. A-32013/1/98-Estt. I—The President is pleased to appoint the following regular Section Officers as Under Secretaries on ad-hoc basis with effect from the dates mentioned against each till further orders :

Sl. No.	Name of the officer	Date of joining
	S/Shri	
1.	H. C. S. Rawat	16.2.2005 (FN)
2.	Rishi Kumar	22.2.2005 (FN)
3.	Smt. Nirmala Goel	18.2.2005 (FN)
4.	J. S. Audhkhasi	23.2.2005 (FN)
5.	Jarnail Ram	18.2.2005 (FN)

H. C. BAVEJA, Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF SECONDARY & HIGHER
EDUCATION)

New Delhi, the 8th December 2004

No. A. 32011/10/2003-E. I—The President is pleased to appoint Shri D. Jhingran, IAS (AM : 86) as Director in the Ministry of Human Resource Development (Department of Elementary Education & Literacy) with effect from the forenoon of 08.12.2004 for the balance period of his central deputation tenure i. e. upto 02.02.2009. His tenure as central deputation commenced w.e.f. the 03.02.2004.

K. K. MISHRA, Under Secy.

The 16th December 2004

No. A. 32011/12/2004-E. I—The President is pleased to appoint Ms. N. Sumati, ICAS (87) as Director in the Ministry of Human Resource Development (Department of Secondary & Higher Education) with effect from the afternoon of 15.12.2004 for the period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

K. K. MISHRA, Under Secy.

The 15th March 2005

No. F. 15-2099/2004-E-I—In pursuance of Sub-section (1) of Section 10 of the Copyright Act, 1957 (14 of 1957), the Central Government hereby appoints Shri R. A. S. Kushwaha, Section Officer in this Ministry as Deputy Registrar of Copyrights vice Smt. Sumita Singh, Section Officer with immediate effect.

K. K. MISHRA, Under Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

New Delhi-1, the 7th March 2005

No. A. 12034/2/2005-Estt. (Pt)—The President is pleased to relieve Shri Barelal Mandeliya, Assistant Private Secretary in the personal staff of the Minister of Social Justice and Empowerment (Smt. Meira Kumar) in this Ministry w. e. f. the Afternoon of the 10th February, 2005.

L. C. MAHRRA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 18th March 2005

No. 3(5)/2004-Pers. I—The President is pleased to appoint Shri Balak Ram Jarodiya SO 'SB' (E. Code 265) of this Department as Scientist 'B' in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500/- in the Department of Information Technology with immediate effect.

R. K. MANCHANDA, Dy. Director

No. 3(5)/2004-Pers. I—The President is pleased to appoint the following Scientist 'B' of this Department as Scientist 'C' in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200/- in the Department of Information Technology with immediate effect.

1. Shri T. Santosh (E. Code 867)
2. Shri Sanjay Kumar Vyas (E. Code 869)
3. Km. Rekha Grover (E. Code. 839).
4. Shri V. M. Gupta (E. Code. 844)
5. Shri D. K. J. Lakra (E. Code 251)
6. Shri Y. S. Tanwar (E. Code 264)
7. Shri Shriram Ram (E. Code 261)
8. Smt. Kamini Malik (E. Code 254)
9. Smt. Veena Sharma (E Code 263)
10. Shri R. S. Verma (E. Code 257)

R. K. MANCHANDA, Dy. Director

No. 3(5)/2004-Pers. I—The President is pleased to appoint the following Scientist 'C' of this Department as Scientist 'D' in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500/- in the Department of Information Technology with immediate effect.

1. Shri A. K. Kaushik (E. Code. 222)
2. Shri Om Veer Singh (E. Code. 232)

3. Shri D. P. Singh (E. Code 253)
4. Smt. Sangita Arora (E. Code 259)
5. Shri D. V. L. N. Rao (E. Code 249)
6. Smt. Savita Utreja (E. Code 841)
7. Dr. A. K. Garg (E. Code 840)
8. Shri Vijay Kumar (E. Code 850)
9. Shri M. K. Jain (E. Code 852)

R. K. MANCHANDA, Dy. Director

No. 3(5)/2004-Pers. I—The President is pleased to appoint the following Scientist 'D' of this Department as Scientist 'E' in the scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300/- in the Department of Information Technology with immediate effect.

1. Smt. Archana Dureja (E. Code 808)
2. Shri Tara Shanker (E. Code 242)
3. Shri S. K. Marwah (E. Code. 240).
4. Shri O. P. Sharma (E. Code. 231)

R. K. MANCHANDA, Dy. Director

(DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi-110 001, the 18th March 2005

No. 2-1/97-Admn.—Shri S. P. Arya, who has been working as Junior Analyst on deputatin basis, is reverted to his substantive post of Section Officer with effect from 10.03.2005 (A/N).

G. P. PILLAI, Asstt. Director General (Admn.)

MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 22nd March 2005

CORRIGENDUM

No. 98/E(GR)/10/1—The date shown in the third line of the Notification No. 98/E(GR)/10/1 dated 15.12.2004 may be read as 4.3.1999 instead of 8.3.1999.

MAMTA KANDWAL, Dy. Dir. Estt. (Gaz. Rectt.)

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS (DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS)

New Delhi, the 21st March 2005

No. A-32011/2/2003-Estt. II (Pt.)—The President is pleased to appoint Shri Chiranji Lal, Head Project Computer

in the Department of Road Transport & Highways as Chief Draughtsman (Group 'B') Gazetted on regular basis in the Headquarters' Office, New Delhi, in the pay scale of Rs. 6500-200-10,500/- w.e.f. 16th March, 2005 (FN).

DR. N. C. KAUSHIK, Under Secy.

No. A-12025/1/2004-EII—The President is pleased to appoint Shri Abhijeet Kumar as Assistant Executive Engineer (Civil) in the Department of Road Transport & Highways, New Delhi, in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- w.e.f. 09.03.2005 (FN) and until further orders.

DR. N. C. KAUSHIK, Under Secy.

MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY
SOURCES

New Delhi-3, the 18th March 2005

No. 2/2/04-Adm. I—In pursuance of Department of Personnel and Training (E. O.), O. M. No. 20/14/2004-EO (MM) dated the 1st March, 2005, Shri Devinder Singh Malik, IIS (85) has assumed the charge of Director in the Ministry of Non-Conventional Energy Sources on Central Deputation w.e.f. forenoon of the 7th March, 2005 for the balance period of his central deputation tenure upto 25.6.2006 or until further orders, whichever is earlier.

J. MAJUMDAR, Under Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2005
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2005